



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1104]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 27, 2004/पौष 6, 1926

No. 1104]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 27, 2004/PUSHA 6, 1926

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2004

का.आ. 1412(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में गेल उसर से इस्पात इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, श्री विजय जोशी, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड, सेक्टर 8बी, 3डी2, सी.बी.डी., बेलापुर, नवी मुम्बई (महाराष्ट्र) को लिखित रूप में आपेक्ष भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	गाँव	सर्वे न.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
रायगढ़	अलिबाग	बेलोशी	जंगल 311 309 310 316 सरकारी जमीन 344 350	04-50-00 00-17-00 00-42-00 00-02-00 00-15-00 00-23-00 00-36-00 00-01-00
रायगढ़	अलिबाग	वालवडे	नाला 8/2 पी 8/5 पी 9/3 पी 9/4 पी 9/1/2 पी 11/1 पी 10/4 पी 10/2 पी 10/3 पी 10/1 पी 14/4 पी 14/3 पी 14/1 पी 14/2 पी 13/4+2 पी 13/3+1 पी नाला	00-02-00 00-24-00 00-01-00 00-08-00 00-15-00 00-09-00 00-02-00 00-05-00 00-45-00 00-01-00 00-05-00 00-04-00 00-08-00 00-06-00 00-18-00 00-20-00 00-51-00 00-01-00
रायगढ़	अलिबाग	कोलघर	8/1 पी 8/2 पी 7/1बी पी 20/2 पी 19/2 पी 19/1 पी	00-25-00 00-30-00 00-22-00 00-01-00 00-31-00 00-37-00

जिला	तहसील	गाँव	सर्वे न.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
रायगढ़	अलिबाग	कोलघर	22 पी सरकारी जमीन नाला 25/1 पी 33/1/1 पी	00-25-00 00-19-00 00-08-00 00-03-00 01-76-00
रायगढ़	अलिबाग	तलाशेत	42 पी 44/1 पी 44/2 पी 43 पी 45 पी 46 पी 58 पी 57 पी 64 पी 65 पी 56 पी 66 पी नाला 77 पी 74/2 पी 79 पी 86 पी 39 पी	01-21-00 00-49-00 00-07-00 00-04-00 00-01-00 00-53-00 00-47-00 00-15-00 00-27-00 00-07-00 00-03-00 00-10-00 00-05-00 00-30-00 00-42-00 00-31-00 00-01-00 00-01-00
रायगढ़	अलिबाग	भाकरवाड	13बी/1 पी 13बी/2 पी 13ए पी 2 पी 3/1 पी 3/3 पी 3/4 पी नाला 5/4 पी 5/5 पी 5/1बी पी 5/3 पी	00-02-00  00-12-00 00-35-00 00-17-00 00-11-00 00-01-00 00-04-00 00-09-00 00-07-00 00-27-00 00-01-00

जिला	तहसील	गाँव	सर्वे न.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
रायगढ़	अलिबाग	भाकरवाड	5/2 पी	00-01-00
			5/6 पी	00-06-00
			6/4ए पी	00-20-00
			6/6 पी	00-12-00
			6/1 पी	00-01-00
			13ए पी	00-14-00
रायगढ़	अलिबाग	कलवाडखार	8 पी	00-01-00
			7 पी	00-01-00
			6 पी	00-52-00
			5 पी	00-01-00
			3 पी	00-15-00
			2 पी	00-10-00
			15 पी	00-01-00
			262 पी	00-01-00
			1 पी	00-15-00
			261 पी	00-01-00
			72 पी	00-02-00
			263 पी	00-05-00
			260 पी	00-09-00
			247 पी	00-06-00
			252 पी	00-05-00
			251 पी	00-11-00
			249 पी	00-06-00
			232 पी	00-09-00
			248 पी	00-01-00
			234 पी	00-10-00
			233 पी	00-03-00
			226 पी	00-06-00
			224 पी	00-03-00
			227 पी	00-03-00
			217 पी	00-10-00
			225 पी	00-03-00
			223 पी	00-03-00
			218 पी	00-09-00
			221 पी	00-16-00
			220 पी	00-11-00

जिला	तहसील	गाँव	सर्वे न.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
रायगढ़	अलिबाग	भोपोली	23 पी	00-49-00
			22/2 पी	00-18-00
			22/1 पी	00-31-00
			20 पी	00-54-00
			15 पी	00-26-00
			18/1 पी	00-17-00
			जंगल	00-16-00
			17/1 पी	00-01-00
			17/2 पी	00-40-00
			जंगल	02-27-00
			14 पी	00-15-00
रायगढ़	अलिबाग	दहेनकरी	15/2 पी	00-12-00
			14 पी	00-07-00
			15/3 पी	00-11-00
			15/4 पी	00-15-00
			15/5 पी	00-05-00
			नाला	00-08-00
रायगढ़	अलिबाग	शहाबाज	सरकारी जमीन	00-54-00
			नदी	01-28-00
			नदी	00-04-00
			722 पी	00-01-00
			724 पी	00-35-00
			729 पी	00-14-00
			707	00-05-00
			733	00-19-00
			737	00-39-00
			738	00-02-00
			781	00-07-00
			780	00-16-00
			822	00-10-00
			779	00-07-00
			823	00-27-00
			821	00-01-00
			837	00-17-00
			849	00-29-00

जिला	तहसील	गाँव	सर्वे न.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
रायगढ़	अलिबाग	शहाबाज	838	00-03-00
			850/2पी	00-17-00
			848	00-07-00
			नाला	00-03-00
			855	00-21-00
			854	00-12-00
			856	00-11-00
			857	00-01-00
			860बी पी	00-07-00
			863	00-08-00
			861 पी	00-08-00
			862	00-09-00
			887	00-01-00
			886	00-21-00
			882	00-09-00
			885	00-22-00
			893	00-09-00
			895/2 पी	00-14-00
			896	00-20-00
			897	00-01-00
			899	00-17-00
			900	00-27-00
			901	00-22-00
			नाला	00-04-00
			902	00-30-00
			906	00-56-00
			907	00-01-00
			नाला	00-03-00
			912	00-01-00
			914	00-20-00
			913	00-13-00
			915	00-02-00
			916	00-20-00
रायगढ़	अलिबाग	श्रीगांव	नदी	00-21-00
			34	00-01-00
			33	00-21-00

जिला	तहसील	गाँव	सर्वे न.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
रायगढ़	अलिबाग	श्रीगांव	32	00-05-00
			31	00-16-00
			36	00-09-00
			30	00-10-00
			37	00-05-00
			41/ए पी	00-10-00
			41/बी पी	
			39	00-28-00
			40	00-04-00
			45	00-01-00
			44	00-08-00
			97	00-13-00
			एमआईडीसी	00-08-00
			100	00-12-00
			101	00-10-00
			102	00-10-00
			103	00-02-00
			88/ए पी	00-10-00
			88/बी पी	
			105	00-01-00
			87/ए पी	00-19-00
			87/बी पी	
			86	00-07-00
			85	00-01-00
			84	00-16-00
			397	00-09-00
			399	00-07-00
			395	00-01-00
			394	00-11-00
			393	00-17-00
			392	00-22-00
			407	00-07-00
			410	00-26-00
			413	00-24-00
			414	00-37-00
			303	00-13-00
			रोड	00-34-00

जिला	तहसील	गाँव	सर्वे नं.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
रायगढ़	अलिबाग	श्रीगाँव	415	00-26-00
			416	00-19-00
			290	00-44-00
			रोड	00-05-00
			295	00-02-00
			297	00-18-00
			289	00-08-00
			277	00-38-00
			271	00-32-00
			272	00-28-00
			273	00-01-00
			264	00-15-00
			265	00-20-00
			267	00-03-00
			263	00-16-00
			262	00-55-00

[फा. सं. एल-14014/20/2004-जी.पी. भाग-I]

तरुण श्रीधर, निदेशक



**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2004

**S.O. 1412(E).—** Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas through GAIL Usar to Ispat Industries Limited pipeline project in the State of Maharashtra, a pipeline should be laid by the GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to the Sh. Vijay Joshi, Competent Authority, GAIL (India) Limited, Sector 8B, 3D2, C.B.D., Belapur, Navi Mumbai (Maharashtra).

## SCHEDULED

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area to be acquired for ROU (In Hectare)
Raigad	Alibaug	Belosi	Forest	04-50-00
			311	00-17-00
			309	00-42-00
			310	00-02-00
			316	00-15-00
			Govt. Land	00-23-00
			344	00-36-00
			350	00-01-00
Raigad	Alibaug	Valvade	Nala	00-02-00
			8/2 P	00-24-00
			8/5 P	00-01-00
			9/3 P	00-08-00
			9/4 P	00-15-00
			9/1/2 P	00-09-00
			11/1 P	00-02-00
			10/4 P	00-05-00
			10/2 P	00-45-00
			10/3 P	00-01-00
			10/1 P	00-05-00
			14/4 P	00-04-00
			14/3 P	00-08-00
			14/1 P	00-06-00
			14/2 P	00-18-00
			13/4+2 P	00-20-00
			13/3+1 P	00-51-00
			Nala	00-01-00
Raigad	Alibaug	Kolaghar	8/1 P	00-25-00
			8/2 P	00-30-00
			7/1B P	00-22-00
			20/2 P	00-01-00
			19/2 P	00-31-00
			19/1 P	00-37-00
			22 P	00-25-00
			Govt. Land	00-19-00
			Nala	00-08-00
			25/1 P	00-03-00
			33/1/1 P	01-76-00

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area to be acquired for ROU (In Hectare)
Raigad	Alibaug	Talasheth	42 P	01-21-00
			44/1 P	00-49-00
			44/2 P	00-07-00
			43 P	00-04-00
			45 P	00-01-00
			46 P	00-53-00
			58 P	00-47-00
			57 P	00-15-00
			64 P	00-27-00
			65 P	00-07-00
			56 P	00-03-00
			66 P	00-10-00
			Nala	00-05-00
			77 P	00-30-00
			74/2 P	00-42-00
			79 P	00-31-00
			86 P	00-01-00
			39 P	00-01-00
Raigad	Alibaug	Bhakarvad	13B/1 P	00-02-00
			13B/2 P	
			13/A P	00-12-00
			2 P	00-35-00
			3/1 P	00-17-00
			3/3 P	00-11-00
			3/4 P	00-01-00
			Nala	00-04-00
			5/4 P	00-09-00
			5/5 P	00-07-00
			5/1B P	00-27-00
			5/3 P	00-01-00
			5/2 P	00-01-00
			5/6 P	00-06-00
			6/4A P	00-20-00
			6/6 P	00-12-00
			6/1 P	00-01-00
			13A P	00-14-00
Raigad	Alibaug	Kalwadkhar	8 P	00-01-00
			7 P	00-01-00
			6 P	00-52-00
			5 P	00-01-00

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area to be acquired for ROU (In Hectare)
Raigad	Alibaug	Kalwadkhar	3 P	00-15-00
			2 P	00-10-00
			15 P	00-01-00
			262 P	00-01-00
			1 P	00-15-00
			261 P	00-01-00
			72 P	00-02-00
			263 P	00-05-00
			260 P	00-09-00
			247 P	00-06-00
			252 P	00-05-00
			251 P	00-11-00
			249 P	00-06-00
			232 P	00-09-00
			248 P	00-01-00
			234 P	00-10-00
			233 P	00-03-00
			226 P	00-06-00
			224 P	00-03-00
			227 P	00-03-00
			217 P	00-10-00
			225 P	00-03-00
			223 P	00-03-00
			218 P	00-09-00
			221 P	00-16-00
			220 P	00-11-00
Raigad	Alibaug	Bopoli	23 P	00-49-00
			22/2 P	00-18-00
			22/1 P	00-31-00
			20 P	00-54-00
			15 P	00-26-00
			18/1 P	00-17-00
			Forest	00-16-00
			17/1 P	00-01-00
			17/2 P	00-40-00
			Forest	02-27-00
Raigad	Alibaug	Dahenkari	14 P	00-15-00
			15/2 P	00-12-00
			14 P	00-07-00
			15/3 P	00-11-00

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area to be acquired for ROU (In Hectare)
Raigad	Alibaug	Dahenkari	15/4 P	00-15-00
			15/5 P	00-05-00
			Nala	00-08-00
Raigad	Alibaug	Shahabaz	Govt. Land	00-54-00
			River	01-28-00
			River	00-04-00
			722 P	00-01-00
			724 P	00-35-00
			729 P	00-14-00
			707	00-05-00
			733	00-19-00
			737	00-39-00
			738	00-02-00
			781	00-07-00
			780	00-16-00
			822	00-10-00
			779	0-07-00
			823	00-27-00
			821	00-01-00
			837	00-17-00
			849	00-29-00
			838	00-03-00
			850/2P	00-17-00
			848	00-07-00
			Nala	00-03-00
			855	00-21-00
			854	00-12-00
			856	00-11-00
			857	00-01-00
			860B P	00-07-00
			863	00-08-00
			861 P	00-08-00
			862	00-09-00
			887	00-01-00
			886	00-21-00
			882	00-09-00
			885	00-22-00
			893	00-09-00
			895/2 P	00-14-00
			896	00-20-00
			897	00-01-00

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area to be acquired for ROU (In Hectare)
Raigad	Alibaug	Shahabaz	899	00-17-00
			900	00-27-00
			901	00-22-00
			Nala	00-04-00
			902	00-30-00
			906	00-56-00
			907	00-01-00
			Nala	00-03-00
			912	00-01-00
			914	00-20-00
			913	00-13-00
			915	00-02-00
			916	00-20-00
Raigad	Alibaug	Srlgaon	River	00-21-00
			34	00-01-00
			33	00-21-00
			32	00-05-00
			31	00-16-00
			36	00-09-00
			30	00-10-00
			37	00-05-00
			41/A P	00-10-00
			41/B P	
			39	00-28-00
			40	00-04-00
			45	00-01-00
			44	00-08-00
			97	00-13-00
			MIDC	00-08-00
			100	00-12-00
			101	00-10-00
			102	00-10-00
			103	00-02-00
			88/A P	00-10-00
			88/B P	
			105	00-01-00
			87/A P	00-19-00
			87/B P	
			86	00-07-00
			85	00-01-00
			84	00-16-00

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area to be acquired for ROU (in Hectares)
Raigad	Allbaug	Srlgaon	397	00-09-00
			399	00-07-00
			395	00-01-00
			394	00-11-00
			393	00-17-00
			392	00-22-00
			407	00-07-00
			410	00-26-00
			413	00-24-00
			414	00-37-00
			303	00-13-00
			Road	00-34-00
			415	00-26-00
			416	00-19-00
			290	00-44-00
			Road	00-05-00
			295	00-02-00
			297	00-18-00
			289	00-08-00
			277	00-38-00
			271	00-32-00
			272	00-28-00
			273	00-01-00
			264	00-15-00
			265	00-20-00
			267	00-03-00
			263	00-16-00
			262	00-55-00

[F.No. L-14014/20/2004-G.P. Part-I]

TARUN SHRIDHAR, Director

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2004

का.आ. 1413(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में पनवेल - उरान द्वारा प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, श्री विजय जोशी, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इंडिया) लिमिटेड, सेक्टर 8बी, उडी2, सी.बी.डी., बेलापुर, नवी मुम्बई (महाराष्ट्र) को लिखित रूप में आपेक्ष भेज सकेगा।



## अनुसूची

जिला	तहसिल	गाँव	सर्वे नं.	आर. ओ. यू अर्जित करने करने के लिये क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
रायगड	पनवेल	कुंडेवहळ	31	00-35-00
			32	00-02-00
			रोड	00-02-00
			30	00-28-00
			29	00-45-00
			28	00-15-00
			गटर	00-04-00
			76	00-01-00
			70	00-17-00
			76	00-66-00
			75	00-28-00
			73	00-51-00
रायगड	पनवेल	पांडेघर	एन.एच.	01-99-00
			5 पी	00-01-00
			11/बी पी	00-08-00
			11सी पी	00-01-00
			10सी पी	00-02-00
			8ए पी	00-09-00
			रोड	00-02-00
			31	00-11-00
			45/बी पी	00-37-00
			31 पी	00-06-00
			29/ए पी	00-05-00
			29/डी पी	00-03-00
			29/सी पी	00-08-00
रायगड	पनवेल	वहळ	443	00-56-00
			442	00-37-00
			440	00-01-00
			439	00-42-00
			रोड	00-04-00
			386	00-22-00
			वनीकरण	01-40-00

1	2	3	4	5
रायगड	उरण	पागोटे	177	00-25-00
			174	00-20-00
			175	00-09-00
			176	00-43-00
			खार जमीन	00-84-00
			181	00-20-00
			181	00-36-00
			181	00-75-00
			186	00-36-00
			173	00-15-00
			187	00-39-00
			188	00-04-00
			180	00-31-00
			188	00-25-00
			191	00-15-00
			190	00-48-00
			खार जमीन	01-78-00
			खाडी	00-15-00
रायगड	पनवेल	पारगांव	89	00-72-00
			91	01-01-00
			95	00-01-00
रायगड	पनवेल	कोळखे	95/5 पी	00-11-00
			98/6 पी	00-24-00
			96	00-43-00
			98/5 पी	00-47-00
			नाला	00-10-00
रायगड	पनवेल	मानघर	90	00-12-00
			89	00-12-00
			91	00-01-00
			कुंडेयहळ	00-07-00
			43	00-26-00
			44	00-16-00
			43	00-14-00
			45	00-07-00

1	2	3	4	5
रायगड	पनवेल	यहळ	416 421 422	00-34-00 00-33-00 00-30-00
रायगड	उरण	बोकडविरा	49 39 31 30 29 18 19 20 21 22 14 13 10 136 137 138	00-12-00 00-42-00 00-15-00 00-23-00 00-01-00 00-23-00 00-16-00 00-16-00 00-04-00 00-17-00 00-20-00 00-09-00 00-06-00 00-09-00 00-02-00 00-21-00
रायगड	उरण	नवघर	393/ए पी नाला 379 नाला 393/ए 304 303 302 301 393/सी पी 300 397 393/डी पी	00-24-00 00-07-00 00-08-00 00-20-00 00-30-00 00-27-00 00-32-00 00-37-00 00-44-00 01-98-00 00-16-00 00-07-00 00-11-00
रायगड	उरण	पागोटे	नाला	00-14-00

1	2	3	4	5
रायगड	पनवेल	मानघर	80 कुंडेयहळ 79 49 कुंडेयहळ	00-17-00 00-07-00 00-10-00 00-02-00 00-11-00
रायगड	उरण	नागांव	94 65 नाला 64 84	00-14-00 02-59-00 00-09-00 00-15-00 00-05-00
रायगड	पनवेल	कोपर	26	00-55-00
रायगड	उरण	भैंडरवेल	241 348/ए पी 340/सी पी 340/बी पी 340/ए पी 356	00-10-00 01-26-00 01-99-00 00-68-00 00-12-00 00-03-00
रायगड	पनवेल	करंजाडे	42 35 35 36/बी पी 36/सी पी 36/सी और 28 28 26 25 60 67 64 63/ए पी 73/ए पी 73/बी पी 74 76 77	00-51-00 00-01-00 00-21-00 00-15-00 00-03-00 00-17-00 00-67-00 00-27-00 00-04-00 01-47-00 00-01-00 00-47-00 00-02-00 00-29-00 00-10-00 00-04-00 00-45-00 00-27-00

1	2	3	4	5
रायगड	पनवेल	करंजाडे	89	00-05-00
			89	00-03-00
			88	00-29-00
			87	00-05-00
			91	00-53-00
			92	00-06-00
			93	00-21-00
			84	00-03-00
			94	00-52-00
			95	00-18-00
			97	00-24-00
रायगड	पनवेल	वडघर	57	00-05-00
			26	00-18-00
			27	00-19-00
			33	00-08-00
			28	00-43-00
			32	00-25-00
			31	00-31-00
			50	00-57-00
			60	00-01-00
			59	00-06-00
			64	00-55-00
			65	00-15-00
			63	00-37-00
रायगड	पनवेल	बांबवी	68/बी पी	00-47-00
			126	00-04-00
			53	00-44-00
			52	00-25-00
			59	00-20-00
रायगड	उरण	मुथेखार	60	00-34-00
			67	00-02-00
			69	00-34-00
			58	00-65-00
			रोड	00-05-00
			70	00-04-00
			71	00-15-00
रायगड	उरण	मुथेखार	9	00-01-00

1	2	3	4	5
रायगड	उरण	मुथेखार	10	00-04-00
रायगड	उरण	बेलोंडीखार	29	00-13-00
			28	00-01-00
रायगड	उरण	शेमटीखार	45	00-25-00
			22/ई पी	00-03-00
			22/बी पी	00-14-00
			खाडी	00-12-00
रायगड	पनवेल	नांदगांव	14	00-18-00
			13	00-14-00
			12	00-10-00
			8	00-51-00
			9	00-44-00
			5	00-01-00
			4	00-40-00
			3	00-22-00
			2	00-03-00
			नाला	00-10-00
रायगड	उरण	धुतुम	204	00-01-00
			171	00-14-00
			184	00-03-00
			172	00-01-00
			173	00-43-00
			168	00-13-00
			167	00-34-00
			165	00-16-00
			166	00-14-00
			137	00-06-00
			138	00-22-00
			तलाव	00-09-00
			रोड	00-01-00
			141	00-25-00
			142	00-30-00
			140	00-20-00
			146	00-01-00
			147	00-01-00

1	2	3	4	5
रायगड	उरण	धुतुम	148	00-28-00
रायगड	उरण	जासई	117पी	01-27-00
			127पी	00-79-00
			126पी	00-30-00
			128पी	00-57-00
			132पी	00-38-00
			134पी	00-08-00
			135पी	00-33-00
			136पी	00-14-00
			138पी	00-06-00
			137पी	00-23-00
			138पी	00-01-00
			रोड	00-02-00
			नाला	00-03-00
			212पी	00-42-00
			210पी	00-23-00
			209पी	00-31-00
			208पी	00-01-00
			207पी	00-06-00
रायगड	उरण	बोकडविरा	198पी	01-51-00
			76पी	00-15-0
			77पी	00-33-00
			78पी	00-19-00
			75पी	00-01-00
			79पी	00-05-00
			74पी	00-49-00
			73पी	00-29-00
			नाला	00-03-00
			90पी	00-17-00
			91पी	00-45-00
			रोड	00-12-00
			61पी	00-35-00
			63पी	00-14-00
			रोड	00-03-00
			65पी	00-24-00

1	2	3	4	5
रायगड	उरण	बोकडविरा	64पी	00-28-00
रायगड	उरण	पोंडघर	22पी	00-63-00
			24पी	00-42-00
			1पी	00-70-00
रायगड	उरण	चिरले	40	00-22-00
			199पी	00-14-00
			40पी	00-04-00
			39पी	00-16-00
			41पी	00-62-00
			32पी	00-16-00
			33पी	00-47-00
			26पी	00-21-00
			17पी	00-23-00
			191पी	00-12-00
			चिरले पाडा	00-02-00
			16पी	00-21-00
			14पी	00-47-00
रायगड	उरण	वालटी खार	2पी	00-28-00
			3पी	00-11-00
			23पी	00-41-00
			22पी	00-34-00
			17पी	00-29-00
			19पी	00-35-00
			21पी	00-12-00
			20पी	00-03-00
			31पी	00-44-00
रायगड	उरण	चाणजे	419पी	02-16-00
			418पी	01-84-00
			420पी	00-05-00
			421पी	00-03-00
			428पी	00-03-00
			431पी	00-92-00
			406पी	00-13-00



1	2	3	4	5
रायगड	उरण	चाणजे	311पी	00-10-00
			310पी	00-60-00
			309पी	00-43-00
			308पी	00-42-00
			332पी	00-08-00
			333पी	00-24-00
			334पी	00-09-00
			331पी	00-17-00
			335पी	00-15-00
			345पी	00-59-00
			346पी	0-07-00
			347पी	00-15-00
			368पी	00-64-00
			370पी	00-15-00
			369पी	00-17-00
			रोड	00-08-00
			30पी	00-38-00
			यनीकरण	00-55-00
			22ए/1	03-48-00
			25पी	00-01-00
			408पी	00-06-00
रायगड	पनवेल	दापोली	103पी	00-24-00
			102पी	00-23-00
			नाला	00-03-00
			5पी	00-12-00
			नाला	00-10-00
			22पी	00-01-00
			नाला	00-01-00
			21पी	00-29-00
			20पी	00-11-00
			19पी	00-21-00
			13पी	00-46-00
			16पी	00-46-00
			42पी	00-38-00
			50पी	00-04-00
			49पी	00-30-00
			44पी	00-34-00

1	2	3	4	5
रायगड	पनवेल	दापोली	47पी	00-02-00
			45पी	00-42-00
			69पी	00-09-00
			66पी	00-12-00
			70पी	00-33-00
			71पी	00-21-00
			123पी	00-26-00
			रोड	00-10-00
			नाला	00-03-00
			122पी	00-54-00
			125पी	00-30-00

[फा. सं. एल-14014/20/2004-जी.पी.भाग-I]

तरुण श्रीधर, निदेशक

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2004

**S.O. 1413(E).**— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas through Panvel—Uran pipeline project in the State of Maharashtra, a pipeline should be laid by the GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to the Sh. Vijay Joshi, Competent Authority, GAIL (India) Limited, Sector 8B, 3D2, C.B.D., Belapur, Navi Mumbai (Maharashtra).

**SCHEDULE**

DISTRICT	TALUKA	VILLAGE	SERVEY NO.	AREA TO BE ACQUIRED FOR ROU (IN HECTARE)
1	2	3	4	5
RAIGAD	PANVEL	KUNDEVAHAL	31	00-35-00
			32	00-02-00
			ROAD	00-02-00
			30	00-28-00
			29	00-45-00
			28	00-15-00
			DRAIN	00-04-00
			76	00-01-00
			70	00-17-00
			76	00-66-00
			75	00-28-00
			73	00-51-00
RAIGAD	PANVEL	PANDEGHAR	NH	01-99-00
			5 P	00-01-00
			11/B P	00-08-00
			11C P	00-01-00
			10C P	00-02-00
			8A P	00-09-00
			ROAD	00-02-00
			31	00-11-00
			45/B P	00-37-00
			31 P	00-06-00
			29/A P	00-05-00
			29/D P	00-03-00
			29/C P	00-08-00
RAIGAD	PANVEL	VAHAL	443	00-56-00
			442	00-37-00
			440	00-01-00
			439	00-42-00
			ROAD	00-04-00
			386	00-22-00
			FOREST	01-40-00

1	2	3	4	5
RAIGAD	PANVEL	VAHAL	416	00-34-00
			421	00-33-00
			422	00-30-00
RAIGAD	URAN	BOKADVIRA	49	00-12-00
			39	00-42-00
			31	00-15-00
			30	00-23-00
			29	00-01-00
			18	00-23-00
			19	00-16-00
			20	00-16-00
			21	00-04-00
			22	00-17-00
			14	00-20-00
			13	00-09-00
			10	00-06-00
			136	00-09-00
			137	00-02-00
			138	00-21-00
RAIGAD	URAN	NAVAGHAR	393/A P	00-24-00
			NALA	00-07-00
			379	00-08-00
			NALA	00-20-00
			393/A	00-30-00
			304	00-27-00
			303	00-32-00
			302	00-37-00
			301	00-44-00
			393/C P	01-98-00
			300	00-16-00
			397	00-07-00
			393/D P	00-11-00
RAIGAD	URAN	PAGOTE	NALA	00-14-00
			177	00-25-00
			174	00-20-00
			175	00-09-00

1	2	3	4	5
RAIGAD	URAN	PAGOTE	176-	00-43-00
			KHAR LAND	00-84-00
			181	00-20-00
			181	00-36-00
			181	00-75-00
			186	00-36-00
			173	00-15-00
			187	00-39-00
			188	00-04-00
			180	00-31-00
			188	00-25-00
			191	00-15-00
			190	00-48-00
			KHAR LAND	01-78-00
			KHADI	00-15-00
RAIGAD	PANVEL	PARAGAON	89	00-72-00
			91	01-01-00
			95	00-01-00
RAIGAD	PANVEL	KOLKHE	95/5 P	00-11-00
			98/6 P	00-24-00
			96	00-40-00
			98/5 P	00-47-00
			NALA	00-10-00
RAIGAD	PANVEL	MANGHAR	90	00-12-00
			89	00-12-00
			91	00-01-00
			KUNDE VAHA	00-07-00
			43	00-26-00
			44	00-16-00
			43	00-14-00
			45	00-07-00
			80	00-17-00
			KUNDE VAHA	00-07-00
			79	00-10-00
			49	00-02-00
			KUNDE VAHA	00-11-00

1	2	3	4	5
RAIGAD	URAN	NAGAON	94	00-14-00
			65	02-59-00
			NALA	00-09-00
			64	00-15-00
			84	00-05-00
RAIGAD	PANVEL	KOPAR	26	00-55-00
RAIGAD	URAN	BHENDARVEL	241	00-10-00
			348/A P	01-26-00
			340/C P	01-99-00
			340/B P	00-68-00
			340/A P	00-12-00
RAIGAD	PANVEL	KARANJADE	356	00-03-00
			42	00-51-00
			35	00-01-00
			35	00-21-00
			36/B P	00-15-00
			36/C P	00-03-00
			36/C & 28	00-17-00
			28	00-67-00
			26	00-27-00
			25	00-04-00
			60	01-47-00
			67	00-01-00
			64	00-47-00
			63/A P	00-02-00
			73/A P	00-29-00
			73/B P	00-10-00
			74	00-04-00
			76	00-45-00

1	2	3	4	5
RAIGAD	PANVEL	KARANJADE	77	00-27-00
			89	00-05-00
			89	00-03-00
			88	00-29-00
			87	00-05-00
			91	00-53-00
			92	00-06-00
			93	00-21-00
			84	00-03-00
			94	00-52-00
			95	00-18-00
			97	00-24-00
RAIGAD	PANVEL	VADGHAR	57	00-05-00
			26	00-18-00
			27	00-19-00
			33	00-08-00
			28	00-43-00
			32	00-25-00
			31	00-31-00
			50	00-57-00
			60	00-01-00
			59	00-06-00
			64	00-55-00
			65	00-15-00
			63	00-37-00
			68/B P	00-47-00
RAIGAD	PANVEL	BAMBAVI	126	00-04-00
			53	00-44-00
			52	00-25-00
			59	00-20-00
			60	00-34-00
			67	00-02-00
			69	00-34-00
			58	00-65-00
			ROAD	00-05-00
			70	00-04-00
			71	00-15-00

1	2	3	4	5
RAIGAD	URAN	MUTHEKHAR	9	00-01-00
			10	00-04-00
RAIGAD	URAN	BELONDIKHAR	29	00-13-00
			28	00-01-00
RAIGAD	URAN	SAMATIKHAR	45	00-25-00
			22/E P	00-03-00
			22/B P	00-14-00
			KHADI	00-12-00
RAIGAD	PANVEL	NANDGAON	14	00-18-00
			13	00-14-00
			12	00-10-00
			8	00-51-00
			9	00-44-00
			5	00-01-00
			4	00-40-00
			3	00-22-00
			2	00-03-00
			NALA	00-10-00
RAIGAD	URAN	DHUTUM	204	00-01-00
			171	00-14-00
			184	00-03-00
			172	00-01-00
			173	00-43-00
			168	00-13-00
			167	00-34-00
			165	00-16-00
			166	00-14-00
			137	00-06-00
			138	00-22-00
			POND	00-09-00
			ROAD	00-01-00



1	2	3	4	5
RAIGAD	URAN	DHUTUM	141	00-25-00
			142	00-30-00
			140	00-20-00
			146	00-01-00
			147	00-01-00
			148	00-28-00
RAIGAD	URAN	JASAI	117P	01-27-00
			127P	00-79-00
			126P	00-30-00
			128P	00-57-00
			132P	00-38-00
			134P	00-08-00
			135P	00-33-00
			136P	00-14-00
			138P	00-06-00
			137P	00-23-00
			138P	00-01-00
			ROAD	00-02-00
			NALA	00-03-00
			212P	00-42-00
			210P	00-23-00
			209P	00-31-00
RAIGAD	URAN	BOKDVIRA	208P	00-01-00
			207P	00-06-00
			198P	01-51-00
			76P	00-15-0
			77P	00-33-00
			78P	00-19-00
			75P	00-01-00
			79P	00-05-00
			74P	00-49-00
			73P	00-29-00
			NALA	00-03-00
			90P	00-17-00
			91P	00-45-00
			ROAD	00-12-00
			61P	00-35-00
			63P	00-14-00

1	2	3	4	5
RAIGAD	URAN	BOKDVIRA	ROAD	00-03-00
			65P	00-24-00
			64P	00-28-00
RAIGAD	URAN	PONDKHAR	22P	00-63-00
			24P	00-42-00
			1P	00-70-00
RAIGAD	URAN	CHIRLE	40	00-22-00
			199P	00-14-00
			40P	00-04-00
			39P	00-16-00
			41P	00-62-00
			32P	00-16-00
			33P	00-47-00
			26P	00-21-00
			17P	00-23-00
			191P	00-12-00
			CHIRLE PADA	00-02-00
			16P	00-21-00
			14P	00-47-00
			2P	00-28-00
			3P	00-11-00
RAIGAD	URAN	WALTI KHAR	23P	00-41-00
			22P	00-34-00
			17P	00-29-00
			19P	00-35-00
			21P	00-12-00
			20P	00-03-00
			31P	00-44-00
RAIGAD	URAN	CHANJE	419P	02-16-00
			418P	01-84-00
			420P	00-05-00
			421P	00-03-00
			428P	00-03-00
			431P	00-92-00
			406P	00-13-00
			311P	00-10-00
			310P	00-60-00
			309P	00-43-00
			308P	00-42-00
			332P	00-08-00
			333P	00-24-00

1	2	3	4	5
RAIGAD	URAN	CHANJE	334P	00-09-00
			331P	00-17-00
			335P	00-15-00
			345P	00-59-00
			346P	0-07-00
			347P	00-15-00
			368P	00-64-00
			370P	00-15-00
			369P	00-17-00
			ROAD	00-08-00
			30P	00-38-00
			FOREST	00-55-00
			22A/1	03-48-00
			25F	00-01-00
			408P	00-06-00
RAIGAD	PANVEL	DAPOLI	103P	00-24-00
			102P	00-23-00
			NALA	00-03-00
			5P	00-12-00
			NALA	00-10-00
			22P	00-01-00
			NALA	00-01-00
			21P	00-29-00
			20P	00-11-00
			19P	00-21-00
			13P	00-46-00
			16P	00-46-00
			42P	00-38-00
			50P	00-04-00
			49P	00-30-00
			44P	00-34-00
			47P	00-02-00
			45P	00-42-00
			69P	00-09-00
			66P	00-12-00
			70P	00-33-00
			71P	00-21-00
			123P	00-26-00
			ROAD	00-10-00

1	2	3	4	5
RAIGAD	PANVEL	DAPOLI	NALA 122P 125P	00-03-00 00-54-00 00-30-00

[F.No. L-14014/20/2004-G.P. Part-I]

TARUN SHRIDHAR, Director

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2004

का.आ. 1414(अ).— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में हजीरा – उरान पाइपलाइन परियोजना तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और स्वनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, श्री विजय जोशी, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड, गेल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-8बी, 3डी2, सी.बी.डी., बेलापुर, नवी मुम्बई-400 614 (महाराष्ट्र) को लिखित रूप में आपेक्ष भेज सकेगा।

**अनुसूची**

जिला	तहसील	गाँव	सर्वे नं.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
रायगड़	पनवेल	पलस्ये	9	00-08-00
रायगड़	पनवेल	चिखले	76/5	00-08-00
			75/1	00-02-00
			74/2	00-03-00
			61/7	00-05-00
			48/5डी	00-20-00
रायगड़	पनवेल	मोहो	82/1	00-42-00
			81/4	00-00-50
			81/5	00-02-00
			16/5	00-14-00
रायगड़	पनवेल	नेरे	153/5	00-15-00
			153/9	00-02-00
			153/18	00-31-00
			50/4	00-16-00
रायगड़	पनवेल	वाकडी	15/1	00-13-00
			15/3	00-15-00
			15/4	00-02-00
			139/10	00-03-00
			135/15	00-13-00
रायगड़	पनवेल	खानाव	नदी	00-26-00
			56	01-09-50
रायगड़	पनवेल	महोदर	255	00-30-00
			231	00-20-00

1	2	3	4	5
रायगड	पनवेल	महोदर	65/3	00-08-00
			65/4	00-08-00
			63/1	00-30-00
			62/0	00-37-00
			50/1	00-14-00
			50/4	00-14-00
			165/2	00-06-00
			165/11	00-30-00
			160/8	00-17-00
			160/9	00-03-00
रायगड	पनवेल	नितलस	246	00-26-00
			254	00-12-00

[फा. सं. एल-14014/20/2004-जी.पी.भाग-1]

तरुण श्रीधर, निदेशक

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2004

**S.O. 1414(E).—** Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas through Hazira—Uran pipeline project in the State of Maharashtra, a pipeline should be laid by the GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to the Sh. Vijay Joshi, Competent Authority, GAIL (India) Limited, GAIL Complex, Sector-8B, 3D2, C.B.D., Belapur, Navi Mumbai - 400 614 (Maharashtra).

**SCHEDULE**

Distt.	Tehsil	Village	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. (in Hectares)
1	2	3	4	5
Raigad	Panvel	Palaspe	9	00-08-00
Raigad	Panvel	Chikhale	76/5	00-08-00
			75/1	00-02-00
			74/2	00-03-00
			61/7	00-05-00
			48/5D	00-20-00
Raigad	Panvel	Moho	82/1	00-42-00
			81/4	00-00-50
			81/5	00-02-00
			16/5	00-14-00
Raigad	Panvel	Nere	153/5	00-15-00
			153/9	00-02-00
			153/18	00-31-00
			50/4	00-16-00
Raigad	Panvel	Wakadi	15/1	00-13-00
			15/3	00-15-00
			15/4	00-02-00
			139/10	00-03-00
			135/15	00-13-00
Raigad	Panvel	Khanav	River	00-26-00
			56	01-099-50
Raigad	Panvel	Mohodar	255	00-30-00
			231	00-20-00

1	2	3	4	5
Raigad	Panvel	Mohodar	65/3	00-08-00
			65/4	00-08-00
			63/1	00-30-00
			62/0	00-37-00
			50/1	00-14-00
			50/4	00-14-00
			165/2	00-06-00
			165/11	00-30-00
			160/8	00-17-00
			160/9	00-03-00
Raigad	Panvel	Nitlas	246	00-26-00
			254	00-12-00

[F. No. L-14014/20/2004-G.P. Part-I]

TARUN SHRIDHAR, Director

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2004

का.आ. 1415(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में हज्जीरा - उरान पाइपलाइन परियोजना तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, श्री विजय जोशी, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड, गेल कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-8बी, उडी2, सी.बी.डी., बेलापुर, नवी मुम्बई-400 614 (महाराष्ट्र) को लिखित रूप में आपेक्ष भेज सकेगा।



**अनुसूची**

जिला	तहसील	गाँव	सर्वे नं.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
ठाणे	अंबरनाथ	आंबे	नदी 18 78/9	00-28-00 00-02-00 00-02-00
ठाणे	अंबरनाथ	शिरवली	30	00-21-00
ठाणे	अंबरनाथ	चिखलोली	143/4 एन.ए.-2 25/5	00-10-00 00-42-00 00-17-00
ठाणे	कल्याण	चिंचवली	19/2 पी रास्ता	00-04-00 00-02-00
ठाणे	कल्याण	उतने	74/4 पी 74/9 पी रास्ता	00-06-00 00-03-00 00-02-00
ठाणे	कल्याण	रुंदे	रास्ता 84/5 पी	00-02-00 00-04-00
ठाणे	कल्याण	घोटसई	रास्ता रास्ता रास्ता	00-03-00 00-04-00 00-04-00
ठाणे	कल्याण	रायते	96/4 पी	00-02-00
ठाणे	कल्याण	वाहोली	रास्ता	00-02-00
ठाणे	कल्याण	वसंत शेलोली	नाला	00-16-00

3843 G1/04-6

1	2	3	4	5
ठाणे	कल्याण	आष्टी तर्फे चोण	रास्ता रास्ता	00-02-00 00-02-00
ठाणे	भिवंडी	दिघाशी	85/13 पी रास्ता	00-12-00 00-03-00
ठाणे	भिवंडी	खरीवली	49/7 पी 62/2 पी रास्ता	00-10-00 00-03-00 00-02-00
ठाणे	भिवंडी	गोंद्रावली	19/1 पी	00-03-00
ठाणे	भिवंडी	जांभिवली	46/2 पी रास्ता नाला 50/6 पी 48/9 पी 48/5 पी 48/11 पी	00-01-00 00-03-00 00-11-00 00-02-00 00-06-00 00-17-00 00-04-00
ठाणे	भिवंडी	किरवली दुरवली	89/5 पी रास्ता	00-01-00 00-04-00
ठाणे	भिवंडी	लाप बुद्रुक	33/ए1 पी 33/बी2 पी 10/5 पी 10/6 पी 10/7 पी 38 85 100/3 पी 159 रास्ता	00-03-00  00-06-00 00-12-00 00-07-00 00-07-00 00-04-00 00-01-00 00-01-00 00-06-00
ठाणे	भिवंडी	चिंचवली	42/3 पी	00-03-00

1	2	3	4	5
ठाणे	मिवंडी	खलिंग बुद्रुक	19/7 पी 115/5बी पी रास्ता	00-31-00 00-04-00 00-02-00
ठाणे	मिवंडी	दलेपाड़ा	रास्ता	00-03-00
ठाणे	मिवंडी	देवली	रास्ता	00-03-00
ठाणे	मिवंडी	वांद्रे	रास्ता	00-02-00
ठाणे	वाड़ा	सुपौंडे	रास्ता	00-03-00
ठाणे	वाड़ा	भेपिवली	रास्ता	00-02-00
ठाणे	वाड़ा	आंबिस्ते बुद्रुक	448 240/बी पी रास्ता	00-02-00 00-02-00 00-06-00
ठाणे	वाड़ा	विजयगड	रास्ता	00-04-00
ठाणे	वाड़ा	बिलावली	रास्ता	00-02-00
ठाणे	वाड़ा	होंगस्ते	रास्ता	00-03-00
ठाणे	वाड़ा	खनिवली	216 215	00-06-00 00-08-00
ठाणे	वाड़ा	बुधावली	193 188	00-18-00 00-12-00
ठाणे	वाड़ा	मुसारणे	377 399 398	00-04-00 00-05-00 00-01-00
ठाणे	वाड़ा	आंबिस्ते खुर्द	74	00-06-00

1	2	3	4	5
ठाणे	वाड़ा	आंबिस्ते खुर्द	रास्ता	00-02-00
ठाणे	वाड़ा	बिलोशी	रास्ता	00-05-00
ठाणे	वाड़ा	कलमखांड	194	00-06-00
			237	00-08-00
			डब्लू	00-03-00
ठाणे	वाड़ा	चिंचघर	216	00-32-00
ठाणे	विक्रमगड	मुरबाड	273	00-07-00
ठाणे	विक्रमगड	वेती	नदी	00-42-00
ठाणे	विक्रमगड	आंबिवली	नदी	00-30-00
ठाणे	विक्रमगड	पिंपलशेत बुद्रुक	रास्ता	00-01-00
			रास्ता	00-01-00
ठाणे	विक्रमगड	कुर्झ	192	00-04-00
			195	00-22-00
ठाणे	डहाणू	आंबोली	182	00-01-00
ठाणे	डहाणू	हलदपाड़ा	नाला	00-09-00
ठाणे	डहाणू	वाघाडी	319	00-15-00
			39	00-04-00
ठाणे	डहाणू	दापचरी	203	00-02-00
			557	00-12-00
			436	00-34-00
			204	00-10-00
			रास्ता	00-03-00
			179	00-08-00

1	2	3	4	5
ठाणे	डहाणू	दापचरी	176 445	00-01-00 00-21-00
ठाणे	डहाणू	धानिवरी	185	00-02-00
ठाणे	तलासरी	सूत्रकार	134 नाला 308	00-30-00 00-15-00 00-01-00
ठाणे	तलासरी	अनवीर	111	00-28-00

[फा. सं. एल-14014/20/2004-जी.पी. भाग-1]

तरुण श्रीधर, निदेशक

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2004

**S.O. 1415(E).**—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas through Hazira—Uran pipeline project in the State of Maharashtra, a pipeline should be laid by the GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to the Sh. Vijay Joshi, Competent Authority, GAIL (India) Limited, GAIL Complex, Sector-8B, 3D2, C.B.D., Belapur, Navi Mumbai - 400 614 (Maharashtra).

**SCHEDULE**

Distt.	Tehsil	Village	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. (in Hectares)
1	2	3	4	5
Thane	Ambernath	Ambhe	River 18 78/9	00-28-00 00-02-00 00-02-00
Thane	Ambernath	Shirawali	30	00-21-00
Thane	Ambernath	Chikhaloli	143/4 NA-2 25/5	00-10-00 00-42-00 00-17-00
Thane	Kalyan	Chichavali	19/2 P Road	00-04-00 00-02-00
Thane	Kalyan	Utane	74/4 P 74/9 P Road	00-06-00 00-03-00 00-02-00
Thane	Kalyan	Runde	Road 84/5 P	00-02-00 00-04-00
Thane	Kalyan	Ghotsai	Road Road River	00-03-00 00-04-00 00-04-00
Thane	Kalyan	Rayte	96/4 P	00-02-00
Thane	Kalyan	Vaholi	Road	00-02-00
Thane	Kalyan	Vasant Shelavali	Nala	00-16-00

1	2	3	4	5
Thane	Kalyan	Apti (Choun)	Road	00-02-00
			Road	00-02-00
Thane	Bhiwandi	Dighashi	85/13 P	00-12-00
			Road	00-03-00
Thane	Bhiwandi	Kharivali	49/7 P	00-10-00
			62/2 P	00-03-00
			Road	00-02-00
Thane	Bhiwandi	Gondravali	19/1 P	00-03-00
Thane	Bhiwandi	Jambhivali	46/2 P	00-01-00
			Road	00-03-00
			Nala	00-11-00
			50/6 P	00-02-00
			48/9 P	00-06-00
			48/5 P	00-17-00
			48/11 P	00-04-00
Thane	Bhiwandi	Kirawali	89/5 P	00-01-00
		Duravali	Road	00-04-00
Thane	Bhiwandi	Lap Budruk	33/A1 P	00-03-00
			33/B2 P	
			10/5 P	00-06-00
			10/6 P	00-12-00
			10/7 P	00-07-00
			38	00-07-00
			85	00-04-00
			100/3 P	00-01-00
			159	00-01-00
			Road	00-06-00
Thane	Bhiwandi	Chinchavali	42/3 P	00-03-00

1	2	3	4	5
Thane	Bhiwandi	Khaling BK	19/7 P 115/5B P Road	00-31-00 00-04-00 00-02-00
Thane	Bhiwandi	Dalepada	Road	00-03-00
		Devali	Road	00-03-00
Thane	Bhiwandi	Vendre	Road	00-02-00
Thane	Wada	Suponde	Road	00-03-00
Thane	Wada	Bhopivali	Road	00-02-00
Thane	Wada	Ambhiste BK	448 240/B P Road	00-02-00 00-02-00 00-06-00
Thane	Wada	Vijaygadh	Road	00-04-00
Thane	Wada	Bilavali	Road	00-02-00
Thane	Wada	Dogeste	Road	00-03-00
Thane	Wada	Khanivali	216 215	00-06-00 00-08-00
Thane	Wada	Budhavali	193 188	00-18-00 00-12-00
Thane	Wada	Musarne	377 399 398	00-04-00 00-05-00 00-01-00
Thane	Wada	Abhiste Khurd	74	00-06-00



1	2	3	4	5
Thane	Wada	Abhiste Khurd	Road	00-02-00
Thane	Wada	Bhiloshi	Road	00-05-00
Thane	Wada	Kalamkhand	194	00-06-00
			237	00-08-00
			W7	00-03-00
Thane	Wada	Chinchghar	216	00-32-00
Thane	Vikramgadh	Murbad	273	00-07-00
Thane	Vikramgadh	Veti	River	00-42-00
Thane	Vikramgadh	Ambhivali	River	00-30-00
Thane	Vikramgadh	Pimpalshet	Road	00-01-00
		Budruk	Road	00-01-00
Thane	Vikramgadh	Kurze	192	00-04-00
			195	00-22-00
Thane	Dahanu	Amboli	182	00-01-00
Thane	Dahanu	Haladpada	Nala	00-09-00
Thane	Dahanu	Vaghadi	319	00-15-00
			39	00-04-00
Thane	Dahanu	Dapcheri	203	00-02-00
			557	00-12-00
			436	00-34-00
			204	00-10-00
			Road	00-03-00
			179	00-08-00

1	2	3	4	5
Thane	Dahanu	Dapcheri	176 445	00-01-00 00-21-00
Thane	Dahanu	Dhaniwari	185	00-02-00
Thane	Talasari	Sutrakar	134 Nala 308	00-30-00 00-15-00 00-01-00
Thane	Talasari	Anvira	111	00-28-00

[F. No. L-14014/20/2004-G.P. Part-I]

TARUN SRIDHAR, Director